



पत्रांक- 616/21

दिनांक – 10/09/2021

प्रवेश सम्बन्धित सूचना (केवल नवीन सत्र 2021-23 के लिए)

प्यारे प्रशिक्षु,

राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा नामांकन हेतु पोर्टल खोल दिया गया है जिसमें आपके मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन कर पोर्टल पर आपका नाम 2 वर्षों के लिए पंजीकृत करना है ,जिसकी अंतिम तिथि 15/09/2021 तक है। अतः निम्न विवरण के साथ अंतिम तिथि के पूर्व अपना सत्यापन अवश्य करा लें।

1. हाईस्कूल अंक सह मूल (ओरिजिनल) प्रमाण पत्र।
2. जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
3. निवास प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
4. 50 रुपये के स्टाम्प पर पीडीऍफ़ फाइल में दिए गये प्रारूप का शपथ पत्र। (मोबाइल एप पर प्रेषित)

ऊपर के चारो डॉक्यूमेंट को एकसाथ पीडीऍफ़ बना कर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से संस्थान के ईमेल आईडी notifications.deoriapvtiti@gmail.com पर सब्जेक्ट में अपना नाम व ट्रेड लिख कर भेजना होगा। बिना ईमेल भेजे सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं होगा।

उक्त कार्य को अंतिम तिथि के पूर्व ही संपन्न कराने को सुनिश्चित करें तथा शपथ पत्र को ईमेल करने से पहले सभी प्रविष्टियों को भर लें।



प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि-

1. नोटिस बोर्ड।
2. मोबाइल एप व संस्थान के वेबसाइट पर।

**शपथ – पत्र**

मैं .....पुत्र .....आधार संख्या .....

निवासी ग्राम -.....पोस्ट- .....थाना .....पिन.....बिना किसी

दबाव के निम्नलिखित बिन्दुओं को शपथपूर्वक स्वीकार करता हूँ।

1. यह कि मेरा नामांकन सत्र 2021 - 23 के.....ट्रेड में स्वेच्छा से कराया हूँ, भविष्य में ट्रेड परिवर्तन नामांकन रद्द करवाने या उपस्थिति न बन पाने इत्यादि सम्बंधित निवेदन नहीं करूंगा ।

2. यह कि संस्थान से किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाइल न.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ईमेल आईडी..... पूर्ण रूप से सत्य है और यही सूचना प्राप्ति के अंतिम साधन है उक्त में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर संस्थान को सूचित करना मेरी ज़िम्मेदारी है अन्यथा किसी भी प्रकार के सूचना से वंचित होने पर संपूर्ण ज़िम्मेदारी मेरी होगी ।

3. यह कि मैं दोनों वर्षों का प्रशिक्षण शुल्क किसी भी स्थिति में सत्र के जनवरी माह तक जमा कर दूंगा किसी प्रकार की समस्या आने पर संस्थान से अतिरिक्त समय हेतु प्रार्थना करूंगा । अन्यथा प्रतिमाह 500/- के दर से विलम्ब शुल्क के साथ प्रशिक्षण शुल्क जमा होगा ।

4. यह कि मेरी सैत्रिक उपस्थिति 80% से कम होने पर संस्थान द्वारा लगाई गई अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र (अतिरिक्त शुल्क देय जो परीक्षा शुल्क के साथ जमा होगी) में अवश्य उपस्थिति होकर अपने प्रशिक्षण न्यूनतम अवधि को पूर्ण करूंगा अन्यथा संस्थान मुझे परीक्षा से वंचित करने का पूर्ण अधिकार रखता है ।

5. यह कि मैं किसी भी स्थिति में दोनों वर्षों कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में शामिल हूंगा, परीक्षा छोड़ देने पर संस्थान की किसी भी प्रकार से ज़िम्मेदारी नहीं होगी ।

6. यह कि मेरा मूल प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या..... डाक्यूमेंट सत्यापन व छात्रवृत्ति सत्यापन हेतु जमा कर चुका हूँ जिसकी पावती मेरे पास सुरक्षित रख ली गई, प्रमाण पत्र की छायाप्रति मेरे पास है मूल प्रमाण पत्र वापसी संस्थान द्वारा सभी सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा।

7. यह कि संस्थान के प्रशासनिक व प्रशिक्षण सम्बन्धित सभी नियमों का पालन करूंगा और सभी अनुदेशकों का सम्मान करूंगा ।

हस्ताक्षर प्रशिक्षु

हस्ताक्षर अभिभावक

दिनांक-

--

दिनांक-